

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने सिटी के सभी कर्मचारियों को कोविड-19 संबंधी टेस्टिंग कराने के लिए कहा है क्योंकि ओनटैरियो सरकार ने लोकल असेसमेंट सेंटर्स में टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (25 मई, 2020) – आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, सिटी के सभी कर्मचारियों को अपनी लोकल हेल्थ यूनिट (स्थानीय स्वास्थ्य यूनिट) से कोविड-19 (COVID-19) संबंधी टेस्टिंग करवाने के लिए कह रही है। सिटी ने सलाह दी है कि वे सभी कर्मचारी अपनी टेस्टिंग करवाएं, जिन्हें लगता है कि वे कोविड-19 के रोगियों के संपर्क में आए हैं। यह अनुरोध, ओनटैरियो सरकार के अतिरिक्त टेस्टिंग प्रदान करने और हर व्यक्ति की तुरंत टेस्टिंग शुरू करने के फैसले के बाद किया गया है।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) को ओनटैरियो हेल्थ (Ontario Health) द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे लोकल असेसमेंट सेंटर (स्थानीय मूल्यांकन केंद्र) में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की टेस्टिंग शुरू करे और किसी को बिना टेस्टिंग के न जाने दे। जो निवासी टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, उन्हें अब टेलीहेल्थ ओनटैरियो (Telehealth Ontario), प्राइमरी केयर (Primary Care) या पब्लिक हेल्थ (Public Health) द्वारा असेसमेंट सेंटर में भेजने की जरूरत नहीं है।

सिटी, ब्रैम्पटन में कोविड-19 के असर को कम करने और इसे फैलने से रोकने के लिए सक्रिय तौर पर कदम उठा रही है। इसमें शामिल हैं, सिटी की फेसिलिटीज और ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय और उन प्रोग्रामों व सेवाओं को बंद करना, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं या जहां शारीरिक दूरी रखना मुश्किल होता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health), [प्रांत की वेबसाइट \(Province's website\)](#) पर जगहों सहित, सभी असेसमेंट सेंटर्स की सूची देगा, ताकि जनता और कर्मचारी आसानी से असेसमेंट सेंटर ढूँढ पाएं। सिटी, टेस्टिंग बढ़ाने और गतिशील (मोबाइल) असेसमेंट्स के लिए, प्रांतीय सरकार की प्रतिबद्धता का स्वागत करती है। साथ ही, यह सिटी की ज़रूरी और महत्वपूर्ण सेवाओं के कार्यस्थलों में गतिशील असेसमेंट को आसान बनाने के लिए स्थानीय अस्पतालों के साथ मिलकर काम करेगी।

सिटी, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) और डाउनटाउन ब्रैम्पटन बी.आई.ए. (Downtown Brampton BIA) के द्वारा, स्थानीय कारोबारियों को सलाह भी देगी और हाल ही के सप्ताहों में दुबारा खोली गई दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को टेस्टिंग करवाने का अनुरोध करेगी।

हवाले

“मैंने कल प्रीमियर से बात की थी। उन्होंने पूरे प्रांत में टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। हम सिटी के कर्मचारियों को टेस्टिंग करवाने का अनुरोध करके सरकार के अनुरोध का पालन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को कोविड-19 के लक्षण नहीं हैं, वे भी टेस्टिंग करवाएं, ताकि ब्रैम्पटन, ओनटैरियो में कोविड-19 को फैलने से रोकने में मिसाल पेश कर पाएं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हमारे स्थानीय स्वास्थ्य साझेदारों और हमारे मज़दूर साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। हम जानते हैं कि अतिरिक्त टेस्टिंग, ब्रैम्पटन के लोगों पर इस वायरस का असर कम करने में भूमिका निभा

सकती है, खासकर हमारे ज़रूरी और महत्वपूर्ण सेवाओं वाले कर्मचारियों के लिए। इकट्ठे मिलकर, हम इसके असर को कम करने और इसे फैलने से रोकने के लिए काम जारी रखेंगे।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इस महामारी के दौरान पूरे ब्रैम्पटन में निवासियों को महत्वपूर्ण सेवाएं दी जा रही हैं, हमारे कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं और फ्रंटलाइन्स पर मेहनत कर रहे हैं। हम स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लक्षण होने से पहले ही, हमारे मेम्बरों की टेस्टिंग करवाने की हिमायत करते हैं, ताकि हम उन्हें और हमारी ट्रांज़िट सवारियों को सुरक्षित रख पाएं। हम इस वायरस के असर को कम करने के लिए इकट्ठे काम कर रहे हैं।”

- फ्रैंक वानी (Frank Vani), प्रेजिडेंट, अमलगमेटेड ट्रांज़िट यूनियन, लोकल 1573

“एमरजेंसी विभागों में काम करने वाले हमारे कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहे हैं कि हम इस कोविड-19 महामारी के साथ सीधे निपट रहे हैं। प्रांत द्वारा टेस्टिंग की बढ़ाई गई क्षमता को देखते हुए, हम हमारे मेम्बरों को पुरज़ोर सलाह देते हैं कि वे टेस्टिंग जरूर करवाएं, चाहे उन्हें लक्षण न भी हों, ताकि हम इस वायरस को फैलने से रोक पाएं।”

- पॉल लेकोम्प्टे (Paul Lecompte), प्रेजिडेंट, ब्रैम्पटन प्रोफेशनल फायर फाइटर्स एसोसिएशन, लोकल 1068

“इस मुश्किल समय के दौरान, हमारे मेम्बर लगातार सिटी की सेवाएं प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। हम अपने मेम्बरों को सलाह देते हैं कि वे इस समाधान का हिस्सा बनें, ताकि हम जल्दी से जल्दी, कारोबार को पहले वाली स्थिति में ला पाएं। बढ़ी हुई टेस्टिंग उपलब्ध होने से, हम सलाह देते हैं कि सभी मेम्बरों की टेस्टिंग हो, ताकि हम कोविड-19 से जीत प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा पाएं।”

- कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक इंप्लाइज, लोकल 831

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca